

1.

2. ———

$$AD = C + I + G + X - M$$

✓ (i) C = Consumption

(ii) I = Investment
निवेश



उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले
स्वर्ण को निवेश करते हैं।



मशीन, उपकरण, भवन आदि।




Inverse relation
उल्टा सम्बन्ध



ब्याज दर और निवेश





(iii) $G = \text{Govt. Expenditure}$



सरकार द्वारा खर्च ।



↓
उपभोग



उत्पादन क्षमता
नहीं बढ़ाता है।

↓
निवेश



उत्पादन क्षमता
बढ़ाता है।


(iv) $X = \text{Exports}$



विदेशी निवासियों द्वारा खर्च ।



रुवदेशी वस्तुओं / सेवाओं



Commonwealth Games

Export

b
c
d




(V) $M = \text{Imports}$

↓
आयात

↓
विदेशी वस्तुओं और सेवाओं
पर खर्च ।

↓
उस देश के निवासियों द्वारा ।

↓
आयात और GDP के बीच में सम्बन्ध ।
↓



GDP बढ़ता है तो आयात बढ़ते हैं।

1 L

② L

(i)

(ii)

③ यदि कोई अभिव्यक्ति आयात -
निर्माता नहीं करती है।

↓
Closed / Cruso Economy
बन्द / क्रुसो

↓
 $AD = C + I + G + \boxed{X - M}$

↓
Three Sector Economy

૫. અંતરાષ્ટ્રીય વાપાર કરને
વાલી અર્થવ્યવસ્થા ।



Open Economy
સ્વુલી અર્થવ્યવસ્થા

અથવા

Four Sector Economy



$$C + I + G +$$

$$\begin{array}{c} NX \\ \downarrow \\ X - M \end{array}$$

↓
Net Export

कुछ मुख्य आर्थिक समस्याएँ

1. Slowdown
रलोडाउन

↓
GDP की वृद्धि दर (Growth Rate)
कम हो जाती है।

↓
↑ GDP

↓
Growth Rate ↓

	t_1	t_2	t_3
GDP $\rightarrow$	100	105	108
growth rate $\rightarrow$	-	5%	approx - 3%

Diagram -

